



प्रभास  
राजपत्र वितरण एकक

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

Po-110  
KM-पुई किय  
CPB-105

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 5, 2004—जून 11, 2004 (ज्येष्ठ 15, 1926) रा. वि. एकक  
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 5, 2004—JUNE 11, 2004 (JYAISTHA 15, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 31 मार्च 2004

सं. ए.-19014/1/2002-प्रशा.-1--स्थापना अधिकारी का कार्यालय,  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 मार्च, 2004 के का. जा. सं.  
21/6/2001-ई.ओ. (एम.एम.-1) द्वारा समय पूर्व अपने मूल विभाग में  
प्रत्यावर्तन के लिए उनका अनुरोध स्वीकार करके श्रीमती के. पी. मैण्डलॉस,  
भा. सू. सेवा (91) को आयोग कार्यालय में उपसचिव के कार्यभार से  
1 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह्न से कार्यमुक्त किया जाता है और अपने मूल  
विभाग अर्थात् सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली में रिपोर्ट करने  
के लिए निदेश दिया जाता है।

एस. आनन्दन

अवर सचिव (प्रशा.)

संघ लोक सेवा आयोग

उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल के पूरा होने पर  
27 अप्रैल, 2004 अपराह्न से आन्ध्र प्रदेश सरकार को वापस सौंप दी गई  
है।

एस. डी. बैजल

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

दिनांक 14 मई 2004

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई 2004

सं. डीपी/पर्स-1/2004/1877/3/17/2000--श्री जितेन्द्र, भा. पु. सेवा  
(आं. प्र. : 1992), पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं,

सं. डीपी/पर्स-1/2004/01905/3/22/2004-पर्स.-1--राष्ट्रपति ने श्री  
बिश्वजीत दास, एसीआईओ-1, आसूचना ब्यूरो को 7.4.2004 (अपराह्न)  
से के. अ. ब्यूरो में आमेलन पर स्थानान्तरण आधार पर पुलिस उपाधीक्षक  
के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2004

सं. 2/16/04-प्रशासन-8185--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सचिव श्री डी. डी. लोहानी को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 12.05.2004 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करने हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय  
(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मई 2004

सं. 3/8/2001-प्रशा.-1--श्री एल. कैलासम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा)-1, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी, चेन्नई को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली के कार्यालय से सहायक निदेशक (विधि) के पद से उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि के पूर्ण होने पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कार्यालय आदेश सं. 3/8/2001-प्रशा.-1 तारीख 12 अप्रैल 2004 के अनुपालन में प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा)-1, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी, "लेखा परीक्षा भवन", 361, अन्ना सलाई, तेनायमपेट, चेन्नई-600018 में लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में अगली नियुक्ति हेतु दिनांक 08 अप्रैल 2004 (अपराह्न) को कार्यमुक्त किया गया।

अशोक कुमार सूद  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 21 मई 2004

सं. 3/9/99-प्रशा.-I--श्री एम. के. तिवारी, भा.पु. सेवा (पंजाब 87) जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में उपनिदेशक-सह-उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, को भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1-21015/23/99-आई.पी.एस.-III के अनुपालन में समयपूर्व प्रत्यावर्तन पर उप महानिरीक्षक (प्रशि.) सी.पी.ओ. पंजाब, चण्डीगढ़ के लिए अगली तैनाती हेतु 01 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया गया।

अशोक कुमार सूद  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

## महानिदेशालय, के. रि. पु. बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई 2004

सं. ओ. दो. 1562/पीएफडीसी-पर्स-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति होने संबंधी नोटिस दिनांक 01.10.2003 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री धर्मवीर शिवरैन, उप कमाण्डेन्ट, (ईरला नं. 3870) 55 बटालियन, के.रि.पु.बल, ने दिनांक 01.05.2004 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 01-05-2004 पूर्वाह्न से बल की नफरी से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 17 मई 2004

सं. ई-16013(1)/3/96/कार्मिक-I-1043--मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर श्री आर. के. शुक्ला, भापुसे (एमटी : 76) महानिरीक्षक (मु.) नई दिल्ली ने 1 मई 2004 के पूर्वाह्न से महानिरीक्षक (मु.), बल मुख्यालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार छोड़ दिया है। अधिकारी को 05.05.2004 से 02.07.2004 तक 60 दिनों की अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है, और 1.5.2004 से 4.5.2004 तक तथा 3.7.2004 से 4.7.2004 तक के अवकाश दिनों को भी साथ जोड़ने की अनुमति दी गई है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-28017/5/अधि.से.नि./आरएम/03/कार्मिक-2/1055--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री आर.एम. उपाध्याय, उप महानिरीक्षक, सरकारी सेवा से दिनांक 30.4.2004 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने के.ओ.सुब इकाई इस्को बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-28017/5/अधि.से.नि./बीएनएस/03/कार्मिक-2/1056--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री बी.एन. सारंगी, उप कमांडेंट, सरकारी सेवा से दिनांक 30.4.2004 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने के.ओ.सुब इकाई नाल्को दामनजोड़ी (उड़ीसा) का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  
नई दिल्ली-03, दिनांक 24 मई 2004

सं. ई-16015/1/1/93/कार्मिक-I/पीएफ--निम्नलिखित के औसुब अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति से उनका प्रत्यावर्तन होने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से के औसुब की नफरी में शामिल किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	विभाग का नाम	के औसुब की नफरी में शामिल किए जाने की तारीख	अभ्युक्तियाँ
	सुश्री/श्री				
1.	जे. बी. कौशिक	कमांडेंट	आसूचना ब्यूरो	26.02.2004 (पूर्वाह्न)	दिनांक 26.02.2004 से 58 दिन की अर्जित छुट्टी पर
2.	श्रीमती विद्या सिंह	उप कमांडेंट	आसूचना ब्यूरो	01.05.2004 (पूर्वाह्न)	समयपूर्व प्रत्यावर्तन
3.	अशोक टिक्कू	सहायक कमांडेंट	दि.वि. बोर्ड/ आईपीपीजीसीएल	12.02.2004 (पूर्वाह्न)	दिनांक 12.02.2004 से 16 दिन की अर्जित छुट्टी पर

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के औसुब

सं. ई-16015/1/1/एनसीबी-सीएटी/02/कार्मिक-I/1109--नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आरम्भ में एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्ति होने पर, श्री अपूर्व पाण्डेय ने के औसुब मुख्यालय, नई दिल्ली में सहायक कमांडेंट (प्रशिक्षण/खेलकूद) का कार्यभार दिनांक 7.4.2004 (अपराह्न) से त्याग दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के औसुब

आदेश के द्वारा प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में वेतनमान रूप 7,450-225-11,500 में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 मई 2004

सं. प्रशासन का.आ.सं. 20--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री के. एस. पुनी, व. लोपे. प्र. दिनांक 31-5-04 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त होंगे। उनकी जन्म तिथि 10-5-1944 और नियुक्ति की तिथि 1-8-1967 है।

ह./- अपठनीय  
व. उप-महालेखाकार (प्रशा.)

श्री तापस गुप्त

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रभागीय लेखा अधिकारी-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना के अन्दर एफ.आर.22(1)(ए)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

पी. के. दास  
उप-महालेखाकार (लेखा)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल

कार्यालय आदेश

कोलकाता-700001, दिनांक 11 मई 2004

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-50004, दिनांक 15 मई 2004

सं. डब्ल्यू.एम.1/स्थापना/13--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-II को इस

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखापरीक्षा

अधिकारी (सिविल) के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं।

महालेखाकार (ले. व. ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 20 मई 2004

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नति तिथि
1.	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री इक्कलु नामेश्वर राव	10/23.4.04	28.04.04 अप.
2.	एम. मुब्रामन्यम	14/05.05.04	05.05.04 पूर्वा.
3.	एम. राघवा शर्मा	14/05.05.04	06.05.04 पूर्वा.
4.	सी. एच. संबासिव राव	14/05.05.04	05.05.04 पूर्वा.
5.	पी. धननंजय नायडु	14/05.05.04	05.05.04 पूर्वा.
6.	अरिगपुडी रवी कुमार	14/05.05.04	06.05.04 पूर्वा.
7.	जी. सुब्रामन्यम	14/05.05.04	06.05.04 पूर्वा.

उपर्युक्त पदोन्नतियों उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय के प्रायः प्रशासनिक अधिकरण में लंबित याचिकाओं के परिणामों के बशर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार का ज्ञा.सं. एफ 7/1/80-स्था. (पी. 1) दिनांक 26.9.1981 तथा एफ 13/26/82 स्था. (पी.1) दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

श्रीनिवासु  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 19 मई 2004

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष सम्पूर्णलिखित कल्याण अधिकारी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) के स्वैच्छिक अधिवर्षित पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
01.	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री एस. प्रसाद बाबू	व.ले.प.अ.	22.04.2004 पूर्वा. (स्वैच्छिक)
02.	पी.वी. रोहिनि कुमार मूर्ति	कल्याण अधिकारी	30.04.2004 अप.
03.	डॉ. राम प्रसाद राव	व. ले. प. अ.	30.04.2004 अप.
04.	टी. नागेश्वर राव	व. ले. प. अ.	30.04.2004 अप.
05.	के. भरतुदु	व. ले.प. अ.	30.04.2004अप.
06.	जी. श्रीनिवास शर्मा	व. ले. प. अ.	30.04.2004 अप.
07.	एन. शोभनाद्रि	व. ले. प. अ.	30.04.2004 अप.

श्रीनिवासु  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

का.स्था./ह.व.रो/ई/IV/पें/27--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्त होने की तिथि
1.	श्री डी. अलक्सान्डर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2004 अ. (अधिवर्षिता)
2.	श्री टी.सी. जेकब	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30.04.2004 अ. (अधिवर्षिता)
3.	श्रीमती शान्ता जोसफ	सहायक लेखा अधिकारी	30.04.2004 अ. (अधिवर्षिता)

ह./- अपठनीय  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2004

सं. ए-19018/1601/2001-प्रशा.-(राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बुच्छल राम, सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, रांची से दिनांक 30-04-2004 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. वि. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 19 मई 2004

सं.1200/बी/ए-38012/1 (स्वै.से.)/प्रशा./2000/19ए--श्री बी. आई. लालवानी, प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (ए) (1) के तहत सरकारी सेवा से 12.08.2003 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

## भारतीय सर्वेक्षण विभाग

## महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 11 मई 2004

सं. सी-106/707--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' डिवीजन-I (सर्वेक्षकों/सर्वेक्षण सहायकों/ज्योडेटिक कम्प्यूटरों/साइंटिफिक असिस्टेंटों) की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षक ग्रुप 'बी' के पद पर रुपये 6,500-200-10,500 के वर्तमान में पदोन्नति की जाती है :--

क्र. नाम तथा पद पदोन्नति की तिथि  
सं.

1	2	3
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1. आर. एस. ताम्रकार, सर्वेक्षक		30-01-2004
2. सुभाष चन्द्रा (अनुसूचित जाति), सर्वेक्षक		29-01-2004
3. मो. एम. चौधरी, सर्वेक्षक		10-02-2004
4. ए. के. चिट्टे, सर्वेक्षक		20-02-2004
5. बी. के. गैरोला, सर्वेक्षक		09-03-2004
6. उमा शंकर सिंह, सर्वेक्षक		26-02-2004
7. एच. पी. गुप्ता, सर्वेक्षक		03-02-2004
8. चमन लाल, सर्वेक्षक		25-02-2004
9. बी. के. भसीन, सर्वेक्षक		28-01-2004
10. काली प्रसाद भट्टाचार्य, सर्वेक्षक		28-01-2004
11. प्रकाश, सर्वेक्षक		19-02-2004
12. आर. के. तिवारी, सर्वेक्षक		25-02-2004
13. डी.पी. घिल्लियाल, सर्वेक्षक		23-02-2004
14. चित्त रंजन देव, सर्वेक्षक		26-02-2004
15. राकेश मोहन शर्मा, सर्वेक्षक		23-02-2004
16. प्रताप किशोर साहू, सर्वेक्षक		15-03-2004
17. एन. एम. दण्डसेना, सर्वेक्षक		08-03-2004
18. पी. बरूआ, सर्वेक्षक		23-02-2004
19. दीपांकर चौधरी, सर्वेक्षक		13-02-2004
20. ए. चक्रवर्ती, सर्वेक्षक		28-01-2004
21. नारायण देब, सर्वेक्षक		10-02-2004
22. आर. के. साहू, सर्वेक्षक		03-03-2004
23. निरंजन बेहरा, सर्वेक्षक		03-03-2004
24. हरे कृष्ण साहू, सर्वेक्षक		16-03-2004

1	2	3
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
25. नारायण रथ, सर्वेक्षक		23-02-2004
26. के. के. दास सरकार (अनुसूचित जाति), सर्वेक्षक		28-01-2004
27. मो. सईद आलम, सर्वेक्षक		25-02-2004
28. बी. के. शर्मा, सर्वेक्षक		28-01-2004
29. रविन्द्र प्रसाद, सर्वेक्षक		24-02-2004
30. शिव राम शर्मा, सर्वेक्षक		29-01-2004
31. अमलेन्दु चौधरी, सर्वेक्षक		30-01-2004
32. ए. बी. घाले, सर्वेक्षक		25-02-2004
33. एम. एल. मजूमदार, सर्वेक्षक		30-01-2004
34. ए. के. भट्टाचार्य, सर्वेक्षक		28-01-2004
35. तपन कुमार दत्ता, सर्वेक्षक		29-01-2004
36. शिव वरण सिंह, सर्वेक्षक		12-02-2004
37. ए.पी.एस. तोमर, सर्वेक्षक		28-01-2004
38. समिक कुमार दास, सर्वेक्षक		04-02-2004
39. मो. एस. रहमान, सर्वेक्षक		17-02-2004
40. तपन कुमार भट्टाचार्य, सर्वेक्षक		25-02-2004
41. ए. डी.पी. बर्नबास, सर्वेक्षक		28-01-2004
42. फखरूल इस्लाम चौधरी, सर्वेक्षक		09-02-2004
43. डी. के. बरूआ, सर्वेक्षक		06-02-2004
44. प्रवीन कुमार (अनुसूचित जाति), ज्योडेटिक कम्प्यूटर		28-01-2004
45. हरीश चन्द्र ढींगरा, साइंटिफिक असिस्टेंट		28-01-2004
46. जगदीश लाल, ज्योडेटिक कम्प्यूटर		28-01-2004
47. बद्री प्रसाद (अनुसूचित जाति), सर्वेक्षक सहायक		29-01-2004
48. मनभा शालम (अनुसूचित जन जाति), सर्वेक्षक		06-02-2004
49. एम. खरकॉंगर (अनुसूचित जन जाति), सर्वेक्षक		06-02-2004
50. डी. के. औरोंव (अनुसूचित जन जाति), सर्वेक्षक		25-02-2004
51. शंकर लाल (अनुसूचित जाति), सर्वेक्षक		12-02-2004
52. सोम प्रकाश (अनुसूचित जाति), सर्वेक्षक		28-01-2004
53. अरूण कुमार दास (अनुसूचित जाति), सर्वेक्षक		06-02-2004
54. बी. कृष्णप्पा नायडू (अनुसूचित जन जाति), सर्वेक्षक		28-01-2004
55. एच.एस. वसावा (अनुसूचित जन जाति), सर्वेक्षक		09-02-2004
56. के. एम. रवि (अनुसूचित जाति), सर्वेक्षक		28-01-2004
57. मधुसूदन मुण्डा (अनुसूचित जन जाति), सर्वेक्षक		25-02-2004
58. एस. एल. बानी, सर्वेक्षण सहायक		03-02-2004

डॉ. पृथ्वीश नाग  
भारत के महासर्वेक्षक

दिनांक 17 मई 2004

सं. सी-137/718-ए-निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 7,450-225-11,500 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री सी. के. शर्मा	18-03-2004
2.	श्री आर. एस. धालीवाल	08-04-2004 अपराह्न
3.	श्री एम. एल. वैष्णव	02-04-2004

(डॉ.) पी. नाग  
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-148/725-स्टेनो (1)--निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-I को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निजी सचिव (ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 6,500-200-10,500 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री आर. के. चोपड़ा	05-05-2004

(डॉ.) पी. नाग  
भारत के महासर्वेक्षक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 17 मई 2004

संदर्भ: पीडी/2/(1)/2002आर-4/581--राष्ट्रपति, श्री सुहास शशिकांत कुंभारे को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500 के वेतनमान में दिनांक 12 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

अँन्टोनी डिसा  
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 19 मई 2004

सं. 18/1(2)/2004-ईआर/1174--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, श्रीमती सरोजीनी लक्ष्मण ने दिनांक 30 अप्रैल 2004 के अपराह्न से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) से प्रधान निजी सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. पद्मनाभन  
अवर सचिव

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डायमंड कोन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं.आरओसी/560(3)/24578--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डायमंड कोन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स नोर्थ लिंक स्टील लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं.आरओसी/560(3)/23305--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नोर्थ लिंक स्टील लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रोवर्स फारमा प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं.आरओसी/560(3)/20566--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोवर्स फारमा प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ग्रामीण एग्रो फोरेस्टर्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं.आरओसी/560(3)/21108--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मीडिएट फोरमूलेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 21545--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मीडिएट फोरमूलेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स हापरलिक इन्फोसर्व प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 22214--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स हापरलिंक इन्फोसर्व प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोच लुब्रीकेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 21487--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोच लुब्रीकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इन्टर एक्टिव एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 24133---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्टर एक्टिव एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़



**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीमियर इलेक्ट्रो मैक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।**

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 21999--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रीमियर इलेक्ट्रो मैक प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीतम सिंह बाजबा एण्ड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।**

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 5946--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रीतम सिंह बाजबा एण्ड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. एस. कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।**

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 6432--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. एस. कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जै दुर्गा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।**

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 20042--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जै दुर्गा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विकास ट्रेडिशनल ज्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।**

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 25428--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स विकास ट्रेडिशनल ज्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वॉयस मीडिया इन्टरनेट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।**

जालन्धर शहर, दिनांक 21 मई 2004

सं. 560(5) 21447--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स वॉयस मीडिया इन्टरनेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द  
कम्पनी पंजीकार  
पंजाब, हि. प्र. एवं चण्डीगढ़

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :--**

कटक-753001, दिनांक 19 मई 2004

सं. आर ओ सी/एस ई एस/560/2003/335--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्र.सं.	कंपनी नं.	कंपनी का नाम
1.	15-03380	साज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2.	15-05728	प्रभात कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
3.	15-05909	मिलेनियम प्रोपर्टीस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
4.	15-06107	मिलेनियम कमर्शियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
5.	15-02692	कालिया शेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड

वि. महांति  
कंपनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

कटक-753001, दिनांक 18 मई 2004

सं. आर ओ सी/एस इ एस/560/2003/329--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कंपनी नं.	कंपनी का नाम
1	2	3
1.	15-05215	सुमन एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2.	15-05426	एम्पायर गोल्ड माइन्स (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
3.	15-04122	मिदास एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
4.	15-02973	कृष्णा इस्पात वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	15-05920	बोरीफ्लोरा सिड्स एण्ड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
6.	15-03042	एलाइड इंजीनियर्स ओडिसा प्राइवेट लिमिटेड
7.	15-02127	सि. इन्जीनियर्स एण्ड विल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	15-01381	अमेगा कम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	15-03898	एडवांश हास्पीटलर प्राइवेट लिमिटेड
10.	15-01650	भिडिटि इन्टरलॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	15-03474	मारुति नंदन एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	15-03964	टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
13.	15-01195	कलिंगा कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	15-01127	इन्टेलीजेन्स एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज (उड़ीसा) प्राइवेट लिमिटेड
15.	15-05975	पंजाब एग्रो फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
16.	15-02452	साबत केन्सलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
17.	15-02147	महानदी कंस्ट्रक्शन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	15-01940	सोनोडाइन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	15-01370	पंचशिला कंस्ट्रक्शन्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
20.	15-05565	जोसजो होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	15-02149	होममेड्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	15-00600	पालीकट प्राइवेट लिमिटेड
23.	15-3841	जम्बो एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड
24.	15-3939	शर्धानजली रियलइस्टेट डेवलपर्स एण्ड विल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

वि. महान्ति  
कंपनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में:--

कटक-753001, दिनांक 20 मई 2004

सं. आर ओ सी/एस इ एस/560/2003/339--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कंपनी नं.	कंपनी का नाम
1	2	3
1.	15-04312	राज निलगिरी डेयरी फार्म एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	15-01894	श्री संतोषी वायल प्राइवेट लिमिटेड
3.	15-02122	मैराइन मरमेइड प्राइवेट लिमिटेड
4.	15-05359	पृथ्वी रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

वि. महान्ति  
कंपनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णालक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नै-600006, दिनांक 14 मई 2004

सं. 28348/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृष्णालक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरवियान इंटरक्टिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नै-600006, दिनांक 17 मई 2004

सं. 40744/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरवियान इंटरक्टिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टी.आई.आफ.इंडिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नै-600006, दिनांक 14 मई 2004

सं. 36287/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स टी.आई.आफ.इंडिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स थिरूमलाई कॉफी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नै-600006, दिनांक 17 मई 2004

सं. 38781/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स थिरूमलाई कॉफी प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. मीनाक्षी  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

-----

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 31st March 2004

No. A-19014/2002-Admn.I—Having accepted her request for premature repatriation to her parent department by the Office of the Establishment Officer, Department of Personnel & Training, vide O.M. No. 21/6/2001-EO(MM.I) dated 15th March 2004, Smt. K. P. Mandlaus, I. Info. Ser. (91), stands relieved of her duties as Deputy Secretary in the Commission's Office w.e.f. the forenoon of 1st April 2004 with directions to report to her parent department i.e. Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 13th May 2004

No. DP/PERS.I/2004/1877/3/17/2000—Services of Shri Jitender, IPS (AP: 1992), Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation have been placed back at the disposal of Government of Andhra Pradesh with effect from the afternoon of April 27, 2004 on completion of his Central deputation tenure.

S.D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers)  
CBI

The 14th May 2004

No. DP/PERS.I/2004/01/905/3/22/2004-PERS.I—The President is pleased to appoint Shri Biswajit Das, ACIO-I, Intelligence Bureau as Deputy Supdt. of Police in CBI on transfer on absorption basis w.e.f. 7.4.2004 (AN).

S.D. BAIJAL  
Admn. Officer (Pers)  
CBI

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 19th May 2004

No. 2/16/04-8185-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri D. D. Lohani, Private Secretary in the Commission as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three months on ad hoc basis with effect from 12.5.2004 (FN) till further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(BUREAU OF POLICE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 18th May 2004

No. 3/8/2001-Admn.I—Shri L. Kailasam, Assistant Audit Officer, office of the Principal Accountant General (Audit) I, Tamil Nadu and Pondicherry, Chennai relinquished charge of the office of Assistant Director (Legal), Bureau of Police Research & Development (MHA), New Delhi with effect from the afternoon of April 08, 2004 on completion of his deputation period in pursuance of BPR&D Order No. 3/8/2001-Admn.I dated 12th April, 2004, for his further posting as Audit Officer in the office of the Principal Accountant General (Audit) I, Tamil Nadu & Pondicherry, "LEKHA PARIKSHA BHAVAN", 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018.

A. K. SOOD  
Asstt. Dir. (Admn.)

The 21st May 2004

No. 3/9/99--Admn. I—Shri M. K. Tiwari, IPS (PB:87), relinquished charge of the office of Deputy Director-cum-Deputy Inspector General, Bureau of Police Research & Development (MHA), New Delhi with effect from the forenoon of April 01, 2004, on premature repatriation in pursuance of Government of India, Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1-21015/23/99-IPS. III dated 20th December, 2003, for his further posting as DIG (Training), CPO, Punjab, Chandigarh.

A.K. SOOD  
Asstt. Dir. (Admn.)

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 13th May 2004

No. O-II.1562/04-PF-DC-Pers-I—Consequent on acceptance of his notice dated 01.10.2003 for voluntary retirement from Government service, Shri Dharamvir Shivrain, Dy. Comdt. (IRLA No. 3870) of 55 Bn, CRPF, has been relieved from his post on 01.05.2004 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.05.2004 (FN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers-I)

## (DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-110003, the 17th May 2004

No. E-16013(1)3/96/Pers.I/1043—On repatriation to parent cadre Shri R. K. Shukla, IPS, (MT:76) Inspector General (HQ), FHQ New Delhi relinquished the charge of the post of Inspector General (HQ), FHQ, New Delhi in the

forenoon of 1st May 2004. The officer has been sanctioned 60 days Earned Leave w.e.f. 05.05.2004 to 02.07.2004 with permission to avail 01.05.2004 to 04.05.2004 and 03.07.2004 to 04.07.2004 being holidays.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

No. E-28017/5/RMU/Noti/2004/Pers.II/1055—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri R. M. Upadhyay, relinquished the charge of the post of Deputy Inspector General, CISF Unit IISCO Burnpur, District-Burdwan (WB) in the afternoon of 30.4.2004.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

No. E-28017/5/BNS/Noti/2004/Pers.II/1056—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri B. N. Sarangi relinquished the charge of the post of Deputy Commandant, CISF Unit NALCO Damanjodi, District-Koraput (Orissa) in the afternoon of 30.4.2004.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

The 24th May 2004

No. E-16015/1/NCB-CAT/02/Pers.I/1109—Consequent upon appointment as Assistant Director in Narcotics Control Bureau on deputation basis for a period of one year initially, Shri Apoorv Pandey, Assistant Commandant, CISF has relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF II Qrs., (Trg./Sports), New Delhi w.e.f. 07.04.2004 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

No. E-16015/1/1/93/Pers.I/PF/1113—Consequent upon repatriation of the following CISF officers from deputation, they have been taken on the strength of CISF with effect from the date as shown against their names:—

Sl. No.	Name of the officer	Rank	Name of the Deptt.	Date of taken on strength in CISF	Remarks
	S/Shri				
01.	J. B. Kaushik	Comdt.	Intelligence Bureau	26.05.2004 (FN)	Availed 58 days EL w.e.f. 26.02.2004.
02.	Smt. Vidya Singh	Dy. Comdt.	-do-	01.05.2004 (FN)	Pre-mature repatriation
03	Ashok Tikku	Asstt. Comdt.	DVB/ IPPGCL	12.02.2004 (FN)	Availed 16 days EL w.e.f. 12.02.2004.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. General (CISF)

3-96/6I/04

## INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) DELHI

New Delhi-110002, the 19th May 2004

Admn. O.O. No. 20—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri K. S. Punni, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the afternoon of 31.5.2004.

His date of birth is 10.5.1944 and date of joining is 1.8.1967.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Calcutta-700001, the 11th May 2004

#### OFFICE ORDER

No. WM-I/Est/13—Under the orders of the A.G (A&E), W.B., the following Divisional Accounts Officer Grade-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500 in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts officer Grade-I in the present divisions/ division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

#### 1. Tapas Gupta

The above named officers may submit their options under FR 22(I) (a)(i) within one month from the date of taking over charge as A.O Grade-I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (A/cs)

### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL, ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 15th May 2004

Principal Accountant General (Audit). I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit

Officers (Civil) of this office to the cadre of "Audit Officer" (Civil) in the Scale of Rs. 7,500-250-12,000 with effect from the date(s) mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. & Date	Date of Assumption of charge
	(S/Shri)		
1.	W. Nageswara Rao	10/23.04.2004	28.04.2004 A.N.
2.	M. Subramanyam	14/05.05.2004	05.05.2004 F.N.
3.	M. Raghava Sarma	14/05.05.2004	06.05.2004 F.N.
4.	Ch. Sambasiva Rao	14/05.05.2004	05.05.2004 F.N.
5.	P. Dhananjaya Naidu	14/05.05.2004	05.05.2004 F. N.
6.	Arigapuddi Ravikumar	14/05.05.2004	06.05.2004 F.N.
7.	B. Subrahmanyam	14/05.05.2004	06.05.2004 F.N.

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officials should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M.No. F.7/1/80-Estt. (P.I) dated 26.09.1981 and F. 13/26/82-Estt. (P.I.) dated 08.02.1983.

G. SRINIVAS  
Dy. Accountant General (Admn.)

The 19th May 2004

Principal Accountant General (Audit), I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following officers with effect from the date(s) noted against their names :—

Sl. No.	Name and Designation	Date of Retirement
	(S/Shri)	
1.	S. Prasada Babu, Sr. A.O.	22.04.2004 F.N. (Vol. Retd.)
2.	P. V. Rohini Kumara Murthy, W.O.	30.04.2004 A.N.
3.	G. Raina Prasada Rao, Sr. A.O.	30.04.2004 A.N.
4.	T. Nageswara Rao-I, Sr. A.O.	30.04.2004 A.N.
5.	K. Bharathudu, Sr. A.O.	30.04.2004 A.N.
5.	G. Sreenivasa Sarma, Sr. A.O.	30.04.2004 A.N.
7.	N. Sobhanadri, Sr. A.O.	30.04.2004 A.N.

G. SRINIVAS  
Dy. Accountant General (Admn.)

# OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 20th May 2004

O.E./E&C/EIVP/27—The following Officials of IA&AD retired from Service.

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Sri D. Alexander	Senior Accounts Officer	30.04.2004 A.N. (Superannuation)
2.	Sri T. C. Jacob	Senior Accounts Officer	30.04.2004 A.N. (Superannuation)
3.	Smt. Santha Joseph	Asstt. Accounts Officer	30.04.2004 A.N. (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

## MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 17th May 2004

No. A-19018/1601/2001-Admn (G)—On attaining the age of superannuation, Shri Buchul Ram, Assistant Director (Grade-II) (General Administrative Division), Small Industries Service Institute, Ranchi under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.04.2004.

S. V. N. PILLAI  
Dy. Dir. (Admn.)

## KHAN MANTRALAYA (GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 19th May 2004

No. 1200/B/A-38012/1(VR)/Admn./2000/19A—Shri B. I. Lalwani, Administrative Officer Grade-II, Geological Survey of India has retired voluntarily from Government service with effect from the forenoon of 12.08.2003 under rule 48(A)(1) of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

S. K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
For Director General

## SURVEY OF INDIA SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 11th May 2004

No. C-106/707—The undermentioned Group 'C' Division-I (Surveyors/Survey Assistants/Geodetic Computers/Scientific Assistant) are promoted as Officer Surveyor, Group 'B' Post

in Survey of India on regular basis in the Scale of Pay Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date(s) as shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
---------	------	-------------------

1	2	3
	(S/Shri)	
1.	R. S. Tamrakar, Surveyor	30.01.2004
2.	Subhas Chandra (SC), Surveyor	29.01.2004
3.	C. S. Chaudhari, Surveyor	10.02.2004
4.	A. K. Chitte, Surveyor	20.02.2004
5.	B. K. Gairola, Surveyor	09.03.2004
6.	Uma Shankar Singh, Surveyor	26.02.2004
7.	H. P. Gupta, Surveyor	03.02.2004
8.	Chaman Lal, Surveyor	25.02.2004
9.	V. K. Bhasin, Surveyor	28.01.2004
10.	Kali Prasad Bhattacharjee, Surveyor	28.01.2004
11.	Prakash, Surveyor	19.02.2004
12.	R. K. Tewari, Surveyor	25.02.2004
13.	D. P. Ghildiyal, Surveyor	23.02.2004
14.	Chitta Ranjan Deb, Surveyor	26.02.2004
15.	Rakesh Mohan Sharma, Surveyor	23.02.2004
16.	Pratap Kishor Sahoo, Surveyor	15.03.2004
17.	N. M. Dandasena, Surveyor	08.03.2004
18.	P. Baruah, Surveyor	23.02.2004
19.	Dipankar Choudhury, Surveyor	13.02.2004
20.	A. Chakraborty, Surveyor	28.01.2004
21.	Narayan Deb, Surveyor	10.02.2004
22.	R. K. Sahoo, Surveyor	03.03.2004
23.	Niranjan Behera, Surveyor	03.03.2004
24.	Hare Krushna Sahoo, Surveyor	16.03.2004
25.	Narayan Rath, Surveyor	23.02.2004
26.	K. K. Das Sarkar (SC), Surveyor	28.01.2004
27.	Mohd. Sayeed Alam, Surveyor	25.02.2004
28.	V. K. Sharma, Surveyor	28.01.2004
29.	Rabindra Prasad, Surveyor	24.02.2004
30.	Shiv Ram Sharma, Surveyor	29.01.2004
31.	Amalendu Choudhury, Surveyor	30.01.2004
32.	A. B. Ghale, Surveyor	25.02.2004
33.	M. L. Muzumdar, Surveyor	30.01.2004

1	2	3
	(S/Shri)	
34.	A. K. Bhattacharjee, Surveyor	28.01.2004
35.	Tapan Kumar Dutta, Surveyor	29.01.2004
36.	Shiv Varan Singh, Surveyor	12.02.2004
37.	A.P.S. Tomar, Surveyor	28.01.2004
38.	Samik Kumar Das, Surveyor	04.02.2004
39.	Mohd. S. Rahman, Surveyor	17.02.2004
40.	Tapan Kumar Bhattacharjee, Surveyor	25.02.2004
41.	A. D. P. Barnabas, Surveyor	28.01.2004
42.	Fakhrul Islam Chowdhury, Surveyor	09.02.2004
43.	D. K. Barua, Surveyor	06.02.2004
44.	Praveen Kumar (SC), Geodetic Computer	28.01.2004
45.	Harish Chandra Dhingra, Scientific Assistant	28.01.2004
46.	Jagdish Lal, Geodetic Computer	28.01.2004
47.	Badri Prasad (SC), Survey Assistant	29.01.2004
48.	Manbha Shallam (ST), Surveyor	06.02.2004
49.	Mahmood Kharkongar (ST), Surveyor	06.02.2004
50.	D. K. Oraon (ST), Surveyor	25.02.2004
51.	Shankar Lal (SC), Surveyor	12.02.2004
52.	Som Prakash (SC), Surveyor	28.01.2004
53.	Arun Kumar Das (SC), Surveyor	06.02.2004
54.	V. Krishnappa Naidu (ST), Surveyor	28.01.2004
55.	H. S. Vasava (ST), Surveyor	09.02.2004
56.	K. M. Ravi (SC), Surveyor	28.01.2004
57.	Madhusudan Munda (ST), Surveyor	25.02.2004
58.	S. L. Bani, Survey Assistant	03.02.2004

DR. P. NAG  
Surveyor General of India

The 17th May 2004

No. C-137/718-A—The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted as Establishment & Accounts Officer (G.C.S. Group 'B' Post) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 7,450-225-11,500/- on regular basis with effect from the date(s) as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. C. K. Sharma	18.03.2004
2.	Sh. R. S. Dhaliwal	08.04.2004 (AN)
3.	Sh. M. L. Vaishnav	02.04.2004

DR. P. NAG  
Surveyor General of India

No. C-148/725-Steno(1)—The undermentioned Stenographer Grade-I is hereby promoted to the post of Private Secretary (Group 'B') in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as shown against his name —

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Sh. R. K. Chopra	05.05.2004

Dr. P. NAG  
Surveyor General of India

#### BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 17th May

No. PD/2(1) 2002-R-IV/581—President is pleased to appoint shri Suhas Shashikant Kumbhare as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from forenoon of 12th april, 2004 until further orders.

ANTHONY DESA  
Controller

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 19th May 2004

No. 18/1(2)/2004-ER/1174—Consequent on attaining the age of superannuation, Smt. Sarojini Lakshmanan has relinquished the charge of the post of Principal private Secretary in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the afternoon of april 30, 2004.

K. PADMANABHAN  
Under Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

##### (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

##### OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Diamond Concepts Pvt. Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/24578—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Diamond Concepts Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Northlink Steels Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/23305—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Northlink Steels Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rovers Pharma Pvt. Ltd.

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/20566—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Rovers Pharma Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gramin Agro Forest Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/21108—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Gramin Agro Forest Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kohinoor Multilevel Marketing Pvt. Ltd.

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/24939—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Kohinoor Multilevel Marketing Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh



In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Diamond Weaving Pvt. Ltd.

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/23217—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date thereof the name of M/s. Diamond Weaving Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Usha Spices Pvt. Ltd.

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/21072—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date thereof the name of M/s. Usha Spices Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Durga Dass Woollen Pvt. Ltd.

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(3)/23089—Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date thereof the name of M/s. Shree Durga Dass Woollen Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhatinda Rice Mills Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/4138/1374—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhatinda Rice Mills Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sukhman Trading Company Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/21727/1375—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sukhman Trading Company Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. K. Sports Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/5440/1377—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. K. Sports Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Key Point Property Management Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/24651/1376—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Key Point Property Management Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mishri Lal Kanogia Memorial Health Club Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/25347/1378—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mishri Lal Kanogia Memorial Health Club Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chopra Infotech Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/23833/1379—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chopra Infotech Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coach Lubricants Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/21487/1383—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coach Lubricants Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Majestic Style Info Services Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/24673/1380—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Majestic Style Info Services Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Interactive Education System Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/24133/1384—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Interactive Education System Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mediate Formulation (India) Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/22545/1381—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mediate Formulation (India) Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Premier Electromech Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/21999/1385—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Premier Electromech Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hyperlink Infoserve Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/22214/1382—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hyperlink Infoserve Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pritam Singh Bajwa & Bros Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/5946—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pritam Singh Bajwa & Bros Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. S. Constructions Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/6432—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. S. Constructions Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jai Durga Cold Storage Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/20042—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jai Durga Cold Storage Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikas Traditional Jewellers Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/25428—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vikas Traditional Jewellers Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vioce Media Internet Private Limited

Jalandhar City, the 21st May 2004

No. ROC/560(5)/21447—Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vioce Media Internet Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

DIWAN CHAND  
Registrar of Companies  
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and In the matter  
of following companies.

Cuttack-753001, the 19th May 2004

No. ROC/SES-560/2003/335—Notice is hereby given pursuant to sub-section ( 5 ) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the following companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
01.	15-03380	M/s. Saaj Construction Private Limited
02.	15-05728	M/s. Pravat Construction Private Limited
03.	15-05909	M/s. Millenium Properties Private Limited
04.	15-06107	M/s. Millenium Commercial Agency Private Limited
05.	15-02692	M/s. Kalia Savings & Investment Private Limited

BIBEKANANDA MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and In the matter  
of following companies.

Cuttack-753001, the 18th May 2004

No. ROC/SES-560/2003/329—Notice is hereby given pursuant to sub-section ( 5 ) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the following companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
01.	15-05215	M/s. Suman Agro Farm Private Limited
02.	15-05426	M/s. Empire Gold Mines (India) Private Limited
03.	15-04122	M/s. Midas Agro Products Limited
04.	15-02973	M/s. Krishna Ispat Works Private Limited
05.	15-05920	M/s. Oriflora Seeds & Biotech Private Limited
06.	15-03042	M/s. Allied Engineers Orissa Private Limited
07.	15-02127	M/s. C. Engineers and Builders Private Limited
08.	15-01381	M/s. Omega Complex Private Limited
09.	15-03898	M/s. Advance Hospitals Private Limited
10.	15-01650	M/s. VTT Interlocks Private Limited
11.	15-03474	M/s. Maruti Nandan Associates Private Limited

1	2	3
12.	15-03964	M/s. Technical Institute of Computer Education Private Limited
13.	15-01195	M/s. Kalinga Consultants Private Limited
14.	15-01127	M/s. Intelligence & Security Services (Orissa) Private Limited
15.	15-05975	M/s. Panjab Agro Food Marketing Private Limited
16.	15-02452	M/s. Sabat Consultancy Services Private Limited
17.	15-02147	M/s. Mahanadi Constructions & Minerals Private Limited
18.	15-01940	M/s. Sonodine Exports Private Limited
19.	15-01370	M/s. Panchasila Construction and Trading Private Limited
20.	15-05565	M/s. JCG Hotels Private Limited
21.	15-02149	M/s. Homemates Private Limited
22.	15-00600	M/s. Polycot Private Limited
23.	15-03841	M/s. Jumbo Airways Private Limited
24.	15-03939	M/s. Shardhanjali Real Estate Developers and Builders Private Limited

**BIBEKANANDA MOHANTY**  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and In the matter of following companies.

Cuttack-753001, the 20th May 2004

No. ROC/SES-560/2003/339—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
01.	15-04312	M/s. Raj Nilgiri Dairy Farm and Agro Products Private Limited
02.	15-01894	M/s. Sri Santoshee Oil Private Limited
03.	15-02122	M/s. Marine Mermaid Private Limited
04.	15-05359	M/s. Prithvi Real Estates Private Limited

**BIBEKANANDA MOHANTY**  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Krishnalakshmi Investments Private Limited

Chennai-600006, the 14th May 2004

No. 28438/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krishnalakshmi Investments Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

**S. MEENAKSHI**  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Servion Interactive Systems Ltd.

Chennai-600006, the 17th May 2004

No. 40744/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Servion Interactive Systems Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

**S. MEENAKSHI**  
Asstt. Registrar of Companies,  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. TI of India Exports Ltd.

Chennai-600006, the 14th May 2004

No. 36287/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. TI of India Exports Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

**S. MEENAKSHI**  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Sirumalai Coffee Private Limited

Chennai-600006, the 17th May 2004

No. 38781/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sirumalai Coffee Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

**S. MEENAKSHI**  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu